



क्रमांक:— एफ () गोगुजवि/बाँस/परीक्षा/2024/1302

दिनांक: 07.01.2025

आदेश

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा के संघटक "विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाँसवाड़ा" में संचालित बी.टेक पाठ्यक्रम की परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं—

1. पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पूर्वानुसार राजस्थान टेक्निकल युनिवर्सिटी कोटा के तदनुरूप रहेगी।
2. मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में पूर्व में जारी Relative Scoring के स्थान पर Absolute Scoring तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।
3. Absolute Scoring के संबंध में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' फ्रेमवर्क अनुसार निर्धारित ग्रेडिंग एवं स्कोरिंग तदनुरूप स्वीकार की जाती है।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:— NEP Grading & Scoring Instruction

क्रमांक:— एफ () गोगुजवि/बाँस/परीक्षा/2024/1303
प्रतिलिपि :

1. वित्त नियंत्रक, जीजीटीयू, बाँसवाड़ा।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जीजीटीयू, बाँसवाड़ा।
3. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव
दिनांक: 07.01.2025
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,
बाँसवाड़ा (राज.)


परीक्षा नियंत्रक
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
बाँसवाड़ा (राज.)

1. Letter Grades and Grade Points

Letter Grade	Grade Point	Marks Range (%)
O (Outstanding)	10	90 - 100
A+ (Excellent)	9	80 – 89.99
A (Very good)	8	70 – 79.99
B+ (Good)	7	60 – 69.99
B (Above average)	6	50 – 59.99
C (Average)	5	45 – 49.99
P (Pass)	4	40 – 44.99
F (Fail)	0	Less than 40
Ab (Absent)	0	

2. Computation of SGPA and CGPA

Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

- The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

$$\text{SGPA } (S_i) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$$

Where C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade point scored by the student in the i^{th} course.

- The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is also calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$$

where S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.

Note -

- Marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all semesters taken together shall be mentioned in the marksheet.
- The Letter grades, Grade Point and SGPA and CGPA shall be issued in the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.


कुलसचिव
गोविन्द बुठ जनजातीय विश्वविद्यालय,
बाँसवाड़ा (राज.)